

नवादा में रैपर बदलकर नकली तेल बेचने का मामला: पुलिस ने 2 दुकान में की छापेमारी, भारी मात्रा में नकली जसमीन ब्रांड का तेल बरामद



नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र मार्केट्रिड यूनिजन कम्पनी की टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर नरहट चांदनी चौक बाजार के दो दुकान से भारी मात्रा में नकली जसमीन तेल और खाली बोतल एवं रैपर बरामद किया है। इस मामले में शैलेश कुमार पिता मुसाफिर वर्मा और उपेंद्र प्रसाद पिता स्व तुलसी महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों नरहट चांदनी चौक का रहने वाला बताया जाता है।

यह जानकारी थानाध्यक्ष सरफराज इमाम ने दिया। उन्होंने बताया कि नरहट बाजार के दो दुकान में नकली तेल बनाया जा रहा है। सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही में शैलेश कुमार के दुकान से मैरिको कम्पनी का 10 लीटर जसमीन तेल का खाली बोतल और 90 एमएल का रैपर लगा हुआ 2052 पीस बरामद हुआ है। उपेंद्र प्रसाद के दुकान से मैरिको कम्पनी का जसमीन तेल भरा हुआ 90 एमएल 1220 पीस और मैरिको कम्पनी का जसमीन तेल का रैपर 30856 पीस जोड़ा आगे पीछे लगा हुआ बरामद किया गया है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद नकली तेल और रैपर के मामले गिरफ्तार दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि पूर्व में नरहट में नकली आयुर्वेदिक दवा बनाने का भंडाफोड़ किया गया था। जिसमें भारी मात्रा में नकली आयुर्वेदिक दवा बरामद किया गया था। नकली दवा का कारोबार स्थानीय पोस्टऑफिस के मदद से सप्लाई का खुलासा हुआ था। पूर्व में नकली आयुर्वेदिक दवा बनाने का भंडाफोड़ और नकली जसमीन तेल बनाने का भंडाफोड़ से लोग अचंभित है। लोगों ने पुलिस प्रसाशन से नकली सामानों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/nawada/news/police-raided-2-shops-in-nawada-bihar-bhaskar-latest-news-129701788.html>